




# घर से बचकर निकलने की योजना बार-बार अपनी योजना का अभ्यास करें



अपने परिवार के साथ अपने घर से बचकर निकलने की योजना चिह्नित करें। जानें कि आप अपने घर के सामने बाहर कहाँ मिलेंगे।



यदि संभव हो, तो प्रत्येक कमरे से निकलने के दो रास्तों की योजना बनाएं।



अपने घर के प्रत्येक सदस्य के साथ योजना दोहराएं। जबरन मदद लोगों की पहचान करें।



जल्दी से बाहर निकलें और बाहर ही रहें।



निकलते समय अपने पीछे के दरवाजे बंद कर दें।



अपने मिलने की जगह से या पड़ोसी के घर से 9-1-1 पर कॉल करें।

brampton.ca | firelife@brampton.ca | 905.458.5580

 BramptonFire  @BramptonFireES

 BRAMPTON

